

No. of Printed Pages : 15

BCOC–131

**BACHELOR IN COMMERCE
(GENERAL)/B. A. (VOCATIONAL
STUDIES) MICRO, SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES
(CBCS) [B. COM. (G)/BAVMSME]**

Term-End Examination

June, 2026

**BCOC–131 : FINANCIAL
ACCOUNTING**

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

Note : (i) Attempt any *five* questions.

(ii) Each question carries 20 marks.

1. (a) What do you mean by accounting information ? Mention any *five* users of accounting information. 4+6
(b) Define double entry system. What is the difference between double entry system and single entry system ? 4+6
2. (a) Define Accounting Standards. Explain the role of IFRS in accounting. 4+6
(b) Why are the journals sub-divided ? Explain different types of journal books. 5+5
3. Write about the type of error involved in the following transactions and its impact on the agreement of Trial Balance : 20
 - (i) The Sales Book is cast short by ₹ 6,000.
 - (ii) The Sales Returns Book is overcast by ₹ 3,000.

- (iii) The Purchase Book is overcast by ₹ 2,500.
- (iv) The Purchases Return Book is overcast by ₹ 1,600.
- (v) Credit sale of ₹ 11,000 to Gupta was entered as ₹ 10,100.
- (vi) Cash received for commission ₹ 1,008 was posted to Commission Account as ₹ 1,080.
- (vii) The monthly discount column on the debit side of the Cash Book ₹ 3,000 was credited to Discount Allowed Account.
- (viii) Depreciation on machinery ₹ 1,000 is not posted to Depreciation Account.

(ix) The total of the discount column in the Cash Book on the debit side was ₹ 2,302 on page 56, which was carried forward to the page 57 as ₹ 2,032.

(x) An amount of ₹ 1,600 received from Sita was entered in the credit side of her account.

4. What is depreciation ? Explain briefly different methods of depreciation. 5+15

5. What is meant by hire-purchase system ? Explain the accounting treatment of important items in the books of hire purchaser. 5+15

6. From the following particulars, prepare Mathura Branch Account showing profit or loss : 20

Opening Stock at the Branch : ₹

Goods sent to Branch 37,500

Expenses	1,12,500
Salaries	12,500
Rent	400
Other Expenses	940
Sales (cash)	1,50,000

Closing Stock could not be ascertained but it is known that the branch usually sells goods at cost plus 20%. The branch manager entitled to a commission of 5% of profit of branch after charging commission.

7. What do you mean by normal loss and abnormal loss ? Give, in detail, the accounting treatment for both types of loss of stock with the help of suitable examples.

7+13

8. Bharat and Lakhan entered into a joint venture for constructing factory building of a multinational company for a contract price of ₹ 15,00,000. They agreed to share profits and losses in the ratio of 2 : 1 respectively. During the course of the venture, the following transactions took place : 20

- (i) Bharat purchased steel rods worth ₹ 4,50,000 subject to trade discount @ 10% and paid for freight ₹ 10,000 and also bought a plant for ₹ 50,000.
- (ii) Lakhan took a loan of ₹ 4,00,000 from a bank and bought cement costing ₹ 3,00,000 and bricks worth ₹ 2,00,000.
- (iii) Bharat remitted ₹ 2,00,000 to Lakhan towards joint venture.

(iv) Lakhan paid for godown rent ₹ 25,000 and also bought stone chips worth ₹ 2,00,000.

(v) Lakhan draws a bills of exchange on Bharat for ₹ 2,50,000 which was discounted by Lakhan at a cost of ₹ 5,000.

(vi) Lakhan repaid the bank loan and paid ₹ 8,000 as interest.

Finally, the contract was completed, at the end of which Lakhan decided to take the plant for ₹ 12,000.

The joint venture was closed by Bharat receiving ₹ 8,00,000 and Lakhan ₹ 7,00,000 from the company.

Prepare the following :

- (a) Memorandum joint venture account
- (b) Joint venture account with Lakhan in
the books of Bharat

9. Write notes on the following : $2 \times 10 = 20$

- (a) Computerized accounting system
- (b) Books and registers in Tally

BCOC-131

वाणिज्य स्नातक (सामान्य) /
बी. ए. (व्यावसायिक अध्ययन)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
(सी. बी. सी. एस.)

[बी. कॉम. (जी.) / बी. ए. बी. एम. एस. एम. ई.]

सत्रांत परीक्षा

जून, 2026

बी.सी.ओ.सी.-131 : वित्तीय लेखांकन

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : (i) किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ii) प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।

1. (अ) लेखांकन सूचना से आपका क्या अभिप्राय है ?
 लेखांकन सूचना के किन्हीं पाँच उपयोगकर्ताओं का उल्लेख कीजिए। 4+6
- (ब) दोहरी प्रविष्टि प्रणाली को परिभाषित कीजिए। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली और एकल प्रविष्टि प्रणाली में क्या अंतर है ? 4+6
2. (अ) लेखांकन मानकों को परिभाषित कीजिए। लेखांकन में IFRS की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 4+6
- (ब) रोज़नामचा को उप-विभाजित क्यों किया जाता है ?
 रोज़नामचा पुस्तकों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 5+5
3. निम्नलिखित लेन-देनों में शामिल त्रुटि के प्रकार और तलपट मिलान पर इसके प्रभाव के बारे में लिखिए : 20
- (i) विक्रय बही में ₹ 6,000 कम लिखे हैं।

- (ii) विक्रय वापसी बही में ₹ 3,000 अधिक लिखे हैं।
- (iii) क्रय बही में ₹ 2,500 अधिक लिखे हैं।
- (iv) क्रय वापसी बही में ₹ 1,600 अधिक लिखे हैं।
- (v) गुप्ता को ₹ 11,000 के उधार विक्रय को ₹ 10,100 के रूप में दर्ज किया गया।
- (vi) कमीशन के लिए प्राप्त ₹ 1,008 की नकदी को कमीशन खाते में ₹ 1,080 के रूप में दर्ज किया गया।
- (vii) रोकड़ बही के नामे पक्ष पर मासिक छूट कॉलम में ₹ 3,000 छूट स्वीकृत खाते में जमा किए गए।
- (viii) मशीनरी पर मूल्यह्रास ₹ 1,000 को मूल्यह्रास खाते में दर्ज नहीं किया गया है।
- (ix) रोकड़ बही में नामे पक्ष पर छूट कॉलम का कुल योग पृष्ठ 56 पर ₹ 2,302 था, जिसे पृष्ठ 57 पर ₹ 2,032 के रूप में आगे बढ़ाया गया।

(x) सीता से प्राप्त ₹ 1,600 की राशि उसके खाते के जमा

पक्ष में दर्ज की गई।

4. मूल्यह्रास क्या है ? मूल्यह्रास की विभिन्न विधियों का

संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

5+15

5. किराया क्रय प्रणाली से क्या अभिप्राय है ? किराया-क्रेता की

बहियों में महत्वपूर्ण मदों के लेखांकन उपचार की व्याख्या

कीजिए।

5+15

6. निम्नलिखित विवरणों से, लाभ या हानि दर्शाते हुए मथुरा

शाखा खाता तैयार कीजिए :

20

शाखा में आरंभिक स्टॉक :

(₹)

शाखा को भेजा गया माल

37,500

व्यय

1,12,500

वेतन

12,500

किराया

400

अन्य व्यय

940

बिक्री (नकद)

1,50,000

समापन स्टॉक का पता नहीं लगाया जा सका लेकिन यह ज्ञात है कि शाखा आम तौर पर लागत से 20% अधिक पर माल बेचती है। शाखा प्रबंधक कमीशन लेने के बाद शाखा के लाभ का 5% कमीशन का हकदार होता है।

7. सामान्य हानि एवं असामान्य हानि के बारे में आप क्या समझते हैं ? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से स्टॉक की दोनों प्रकार की हानि के लिए लेखांकन उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए।

7+13

8. भरत और लखन ने ₹ 15,00,000 के अनुबंध मूल्य पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की फैक्ट्री की इमारत के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया। वे क्रमशः 2 : 1 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करने के लिए सहमत हुए। उद्यम के दौरान, निम्नलिखित लेन-देन हुए :

20

- (i) भरत ने 10% की व्यापारिक छूट के अधीन ₹ 4,50,000 मूल्य की स्टील की छड़ें खरीदीं और 10,000 रुपये का भाड़ा चुकाया और ₹ 50,000 का एक प्लांट भी खरीदा।

- (ii) लखन ने बैंक से ₹ 4,00,000 का ऋण लिया और ₹ 3,00,000 का सीमेंट और ₹ 2,00,000 की ईंटें खरीदीं।
 - (iii) भरत ने संयुक्त उद्यम के लिए लखन को ₹ 2,00,000 भेजे।
 - (iv) लखन ने गोदाम का किराया ₹ 25,000 चुकाया और ₹ 2,00,000 के पत्थर के टुकड़े भी खरीदे।
 - (v) लखन ने भरत पर ₹ 2,50,000 का विनिमय पत्र तैयार किया, जिसे लखन ने ₹ 5,000 की लागत पर भुनाया।
 - (vi) लखन ने बैंक का ऋण चुकाया और ₹ 8,000 ब्याज के रूप में चुकाए।
- अंत में, अनुबंध पूरा हो गया, जिसके अंत में लखन ने ₹ 12,000 में प्लांट लेने का फैसला किया।
- भरत को कंपनी से ₹ 8,00,000 और लखन को ₹ 7,00,000 प्राप्त करके संयुक्त उद्यम बंद कर दिया गया।

निम्नलिखित तैयार कीजिए :

- (a) मेमोरेण्डम संयुक्त उद्यम खाता
- (b) भरत की बहियों में लखन के साथ संयुक्त उद्यम खाता

9. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए : 2×10=20

- (i) कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली
- (ii) टैली में पुस्तकें और रजिस्टर

x x x x x